



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

13 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1027 राँची, शुक्रवार,

6 दिसम्बर, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
अधिसूचना

4 दिसम्बर, 2019

**संख्या-13/शक्ति प्र0-04/2019 का0-9726--** जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, राँची के पत्रांक- 183 दिनांक- 30.11.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, विधानसभा आम निर्वाचन, 2019 के लिये वरीय जोनल दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 13, जोनल दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 54, सेक्टर दण्डाधिकारी (सुरक्षित सहित) के रूप में प्रतिनियुक्त 394 तथा पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 2220 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

**संख्या-13/शक्ति प्र0-04/2019 का0- 9727--** जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, दुमका के पत्रांक- 2451 दिनांक- 30.11.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, विधानसभा आम निर्वाचन, 2019 के लिये सेक्टर पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 173 तथा पीठासीन पदाधिकारी (महिला पीठासीन पदाधिकारी सहित) के रूप में प्रतिनियुक्त 1246 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रेम कुमार राय,**  
सरकार के अवर सचिव

-----